

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 01.06.21

थाना कोतवाली को मिली बड़ी सफलता,

मरीजो पर दबाव बनाकर अपने मेडिकल स्टोर से मंहगी दवा खरीदने के लिए मजबूर करने वाला फरार डॉ० अनिल राज गिरफ्तार ।

वादी श्री रजनीश कुमार पुत्र रीतराम नि० ग्राम महमदपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर ने दिनांक 11.05.21 को थाने पर लिखित सूचना दिया कि सरकारी डा० अनिल राज द्वारा मरीज को क्षति पहुँचाना व विधि विरुद्ध रूप से व्यापार करना (मरीजो पर दबाव बनाकर अपने मेडिकल स्टोर से मंहगी दवा खरीदने के लिए मजबूर करने) व धोखाधडी व गाली गलौच करना । इस सूचना पर मु०अ०सं० 212/21 धारा 166/168/420/504/120बी भादवि बनाम डा० अनिल राज आदि पंजीकृत हुआ व इसी दिनांक को वादी श्री शान मिया पुत्र रहमत खाँ नि० ग्राम मिश्रीपुर की लिखित सूचना पर उक्त डा० के विरुद्ध मु०अ०सं० 213/21 धारा 166/168/420/120बी भादवि पंजीकृत किया गया ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा इस घटना को गम्भीरता से लिया गया तथा श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व श्री प्रवीण कुमार क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण मे पुलिस टीम गठित कर संलिप्त अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कडे निर्देश दिये गये ।

इसी क्रम दिनांक 31.05.21 की रात्रि थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर फरार अभियुक्त डॉ० अनिल राज को सीतापुर बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध मे थाना कोतवाली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु०अ०सं० 212/21 धारा 166/168/420/504 भादवि थाना कोतवाली शाहजहाँपुर।
2. मु०अ०सं० 213/21 धारा 166/168/420/120बी भादवि थाना कोतवाली शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण

1. डा० अनिल राज पुत्र रामस्वरुप नि०मो० फत्तेपुर सेदरी निकट रामलीला मैदान के पास थाना कोतवाली जनपद खीरी हाल निवासी म०नं० M002 कालोनी जिला अस्पताल थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

पुलिस टीम का विवरण

1. व०उ०नि० श्री शिव बरन यादव थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ०नि० श्री नरेश चन्द थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
3. हे०का० 159 बलविन्दर थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
4. हे०का० 134 सचिन कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
5. का० 1202 तनुज कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।
6. कां० सजीव सर्विलांस सेल
7. कां० अजय सर्विलांस सेल
8. कां० विशाल सर्विलांस सेल ।